



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2254]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934

No. 2254]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2012

का.आ. 2709(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 19 अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 2413(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2011, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, अर्थात् डीएनए इण्डिया, तारीख 10 नवम्बर, 2011 और सन्देश, तारीख 10 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित किया गया था;

और, 299 (दो सौ निन्यानवे) आक्षेप प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

क.स.	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं.		जमीन के प्रकार	जमीन की प्रकृति	हेक्टर पर मे क्षेत्रफल	जमीन मालिक / रुचिकर व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
1.	महेसाणा	महेसाणा	2004/357 (2379)	2004/357/ P2	निजी	खेती	0.0421	पटेल विष्णुभाई विठ्ठलदास शंकरदास पटेल हरगोवनभाई शंकरदास पटेल चुनीलाल शंकरदास पटेल नटवरलाल शंकरदास
			2004/355 (3282)		निजी	खेती	0.0895	पटेल विष्णुभाई विठ्ठलदास
			2004/356 (3280)	2004/356P2	निजी	खेती	0.0235	सीपाई हसेनाबेन अकबरभाई मीयाभाई की विधवा सीपाई भीमना अकबरभाई सीपाई अलाईखान अकबरभाई सीपाई ईलीयाम अकबरभाई सीपाई अलारखीबेन नथुभाई मायाभाई की विधवा सीपाई शोकतभाई नथुभाई सीपाई अशरफभाई नथुभाई सीपाई सकुरभाई नथुभाई स.प. अल्लारखान
			2004/354 (3283)		निजी	खेती	0.3895	पटेल चुनीलाल शंकरदास
			2004/348 (3301)		निजी	खेती	0.1725	पटेल पहलादभाई मगनलाल पटेल चंद्रकांतभाई पीताम्बरभाई सुथार छनाभाई आत्मारामभाई
			1486/1 (4104)		निजी	खेती	0.0029	पटेल मोहनभाई प्रभुवा मुलचंद पटेल मफतलाल मगनलाल पटेल जेठभाई उगनभाई पटेल हरगोवन अंबाराम
			1486/2 (4105)	1486/2 P	निजी	विन-खेती	0.0048	पटेल खांडाभाई अंबाराम मकवाना दिनोदकुमार अंबाराम परमार रतीलाल भालजीभाई परमार रामाभाई मीठभाई सोलंकी देवजीभाई धनभाई मसबडा नटवरलाल मुलाभाई परमार हरगोवनभाई मुलचंदभाई सोलंकी अंबाराम देवाभाई परमार अंबाराम देवाभाई परमार कांतीभाई मगनलाल सोलंकी अशोककुमार अंबालाल जादव मगनभाई वालजीभाई

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
								परमार मुकेशकुमार परसोत्तमदास परमार हरगोवनभाई विराभाई परमार भरतकुमार रामजीभाई वणकर महेन्द्रकुमार शीवराम परमार दिलीपकुमार भालजीभाई सोलंकी गणपतभाई परखाभाई परमार नटवरलाल अम्थाभाई वाघेला नथीबेन गीरीषभाई सोलंकी पार्वतीबेन चीमनलाल परमार मणीलाल रामजीभाई
			1487 (4106)		निजी	खेती	0.0073	जयस्वाल मीनाक्षीबेन रतीलाल जयस्वाल राजेशकुमार रतीलाल जयस्वाल प्रशांतकुमार रतीलाल जयस्वाल रुपेशकुमार रतीलाल जयस्वाल संजयकुमार रतीलाल जयस्वाल रमणलाल छानलाल जयस्वाल रसीकलाल छानलाल
2	ऊँझा	ऊँझा	1640	1640, 1640 P1, 1640 P2 & 1640 P3	निजी	खेती	0.0325	पटेल भगनलाल लीलाचंद पटेल कांतीलाल लीलाचंद पटेल शारदाबेन कांतीलाल पटेल देवयानी कांतीलाल पटेल रीतेश कांतीलाल पटेल नीतुल कांतीलाल पटेल जयंतीलाल लीलाचंद पटेल भगनलाल लीलाचंद पटेल कांतीलाल लीलाचंद पटेल संतोकरबेन हीराचंद रामचंद की विधवा पटेल जोईताराम हीरालाल पटेल कांतीलाल हीरालाल पटेल शारदाबेन वीठ्ठलभाई हीराभाई की विधवा पटेल वीलीपभाई वीठ्ठलभाई पटेल नीताबेन वीठ्ठलभाई पटेल मनीबेन हीरालाल
			1641		निजी	खेती	0.0260	बारोट दुग्गाध शीवलाल
			1642	1642 P1 and 1642P2	निजी	खेती	0.0309	पटेल मनीबेन शंकरलाल पटेल हरगोवनभाई शंकरलाल पटेल तारबेन शंकरलाल पटेल वीपणुभाई शंकरलाल पटेल नटवरलाल अंबारामदास पटेल शारदाबेन जयंतीलाल पटेल चौरागकुमार जयंतीलाल पटेल जयश्रीबेन जयंतीलाल पटेल कांतीलाल अंबारामदास

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1647	1647/1	निजी	खेती	0.0491	पटेल सोमाभाई वीठ्ठलभाई पटेल अरविभाई छगनलाल पटेल सवीताबेन नटवरलाल पटेल मनीबेन सोमाभाई पटेल कलपेशभाई सोमाभाई पटेल चंद्रीकाबेन सोमाभाई पटेल मेहुलकुमार नटवरलाल पटेल चंद्रीकाबेन सोमाभाई पटेल मेहुलकुमार नटवरलाल पटेल रेखाबेन सोमाभाई
			1647	1647/2	निजी	खेती	0.0567	पटेल दशरथलाल मोहनलाल पटेल वसंतलाल मोहनलाल पटेल सवीताबेन मोहनलाल पटेल चंद्रीकाबेन मोहनलाल पटेल जेठूबेन धनजीभाई पटेल रमेशभाई धनजीभाई पटेल अमृतभाई धनजीभाई
			1648		निजी	खेती	0.1269	पटेल बबीबेन जीवरामभाई पटेल शांताबेन जीवरामभाई पटेल आशाबेन जीवरामभाई पटेल आशीषभाई जीवरामभाई
			1649		निजी	खेती	0.1273	पटेल ईश्वरभाई अंबारामभाई
			1657	1657/1	निजी	खेती	0.1418	पटेल सवीताबेन हीराभाई पटेल कांताबेन हीराभाई पटेल गोवींदभाई हीराभाई पटेल दशरथभाई हीराभाई पटेल पूनमबेन हीराभाई
				1657/2	निजी	खेती	0.1512	पटेल नटवरलाल अंबारामदास पटेल शारदाबेन जयंतीलाल पटेल घीरागकुमार जयंतीलाल पटेल जयश्रीबेन जयंतीलाल पटेल कांताबेन कांतीलाल पटेल महेशभाई कांतीलाल पटेल वीपीनभाई कांतीलाल पटेल हंसाबेन कांतीलाल
			1658	1658 PI, 1658P2, 16 58P3 and 1658P4	निजी	खेती	0.6692	पटेल मोहनभाई परसोत्तभाई पटेल रमिलाबेन परसोत्तभाई पटेल काशीबेन परसोत्तभाई पटेल कांतीलाल अंबारामदास पटेल नटवरलाल अंबारामदास पटेल शारदाबेन जयंतीलाल पटेल घीरागकुमार जयंतीलाल पटेल जयश्रीबेन जयंतीलाल पटेल नाथीबेन तुलसीभाई पटेल वसंतभाई तुलसीभाई

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
								<p>पटेल विजयभाई तुलसीभाई</p> <p>पटेल रसीलाबेन तुलसीभाई</p> <p>पटेल जयोंतसनाबेन तुलसीभाई</p> <p>पटेल रीटाबेन तुलसीभाई</p> <p>पटेल मनीबेन शंकरलाल</p> <p>पटेल हरगोवनभाई शंकरलाल</p> <p>पटेल ताराबेन शंकरलाल</p> <p>पटेल वीष्णुभाई शंकरलाल</p>
			1660/1	1660/1 P1 and 1660/1 P2	निजी	खेती	0.2354	<p>पटेल शंभुभाई प्रभुदास</p> <p>पटेल शंभुभाई प्रभुदास</p> <p>पटेल शंकरभाई शंभुभाई</p> <p>पटेल कांतीलाल नारायणभाई</p> <p>पटेल जीवीबेन भगवानभाई नारायणभाई की विधवा</p> <p>पटेल सुरेशभाई भगवानभाई</p> <p>पटेल कमलेशभाई भगवानभाई</p> <p>पटेल कोकीलाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल चंद्रीकाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल मनजुलाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल रमीलाबेन भगवानभाई</p>
			1660/2	1660/2 P1	निजी	खेती	0.1426	<p>पटेल सवीताबेन हीराभाई</p> <p>पटेल कांताबेन हीराभाई</p> <p>पटेल गोवींदभाई हीराभाई</p> <p>पटेल दशरथभाई हीराभाई</p> <p>पटेल पूनमबेन हीराभाई</p>
			1665	1665/1	निजी	खेती	0.0076	<p>पटेल मोहनभाई परसोत्तभाई</p> <p>पटेल रमीलाबेन परसोत्तभाई</p> <p>पटेल काशीबेन परसोत्तभाई</p>
				1665/2	निजी	खेती	0.2125	<p>पटेल शांताबेन नारायणभाई</p> <p>पटेल नाथलाल नारायणभाई</p>
			1666		निजी	खेती	0.3249	<p>पटेल रमेशभाई भगवानदास</p> <p>पटेल रमेशभाई भगवानदास</p>
			1667	1667 P1 and 1667 P2	निजी	खेती	0.4389	<p>पटेल जीवीबेन भगवानभाई नारायणभाई की विधवा</p> <p>पटेल सुरेशभाई भगवानभाई</p> <p>पटेल कमलेशभाई भगवानभाई</p> <p>पटेल कोकीलाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल चंद्रीकाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल मनजुलाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल रमीलाबेन भगवानभाई</p> <p>पटेल कांतीलाल नारायणभाई</p>
			1669	1669 P1 and 1669 P2	निजी	खेती	0.1118	<p>पटेल कांतीभाई अमथाराम</p> <p>पटेल गोवींदभाई अमथाराम</p> <p>पटेल माधवलाल शंकरलाल</p> <p>पटेल गोवींदभाई शीवरामभाई</p> <p>पटेल कंकीबेन शीवरामभाई</p> <p>पटेल शास्त्राबेन शीवरामभाई</p>

4284 4712-2

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
								पटेल शांताबेन शीवरामभाई
			1670/2		निजी	खेती	0.0345	पटेल जशवंतभाई मनीलाल कृष्णलभाई
			1839		निजी	खेती	0.0583	पटेल खेमीबेन भगवानदास कृष्णल की विधवा पटेल रामजीभाई भगवानभाई पटेल वीष्णुभाई भगवानभाई पटेल शारदाबेन भगवानभाई पटेल ताराभाई भगवानभाई
			1840/1		निजी	खेती	0.0593	पटेल बीपीचंद्र मनीलाल पटेल शांताबेन मनीलाल पटेल वीष्णुभाई मनीलाल पटेल अंबाबेन वसंतलाल
			1842	1842 P1 and 1842 P2	निजी	खेती	0.0560	रावल कनकभाई वासुदेव रावल मुकेशभाई वासुदेव रावल मनोजभाई वासुदेव पटेल जयंतीभाई शंकरलाल पटेल हरीभाई शंकरलाल पटेल दशरथभाई शंकरलाल
			1874/1		निजी	खेती	0.1873	पटेल दशरथभाई जीवरामभाई पटेल सुरेशभाई जीवरामभाई पटेल वसंतभाई जीवरामभाई
			1874/3		निजी	खेती	0.0497	पटेल दशरथभाई जीवरामभाई पटेल सुरेशभाई जीवरामभाई पटेल वसंतभाई जीवरामभाई
			1876		निजी	खेती	0.1164	सिपाही अमीनबानू भाईखान सिपाही ममदुल्लेन भाईखान सिपाही रसुलमीयां भाईखान सिपाही याकूबमीयां भाईखान सिपाही हबीबमीयां भाईखान सिपाही रफीकमीयां भाईखान
			1890		निजी	खेती	0.1217	पटेल मोहनभाई परसोत्तभाई पटेल रमोलाबेन परसोत्तभाई पटेल काशीबेन परसोत्तभाई
			1891		निजी	खेती	0.1428	पटेल सवीलाबेन हीराभाई पटेल कांताबेन हीराभाई पटेल गोवींदभाई हीराभाई पटेल दशरथभाई हीराभाई पटेल पूनमबेन हीराभाई
			1892		निजी	खेती	0.1383	पटेल पशीबेन ईश्वरभाई पटेल भगवतीबेन ईश्वरभाई पटेल भानुबेन ईश्वरभाई पटेल भुपेन्द्रभाई ईश्वरभाई पटेल अरविंदभाई ईश्वरभाई पटेल सुशीलाबेन ईश्वरभाई पटेल वीमनभाई वीटलभाई पटेल गोवींदभाई वीटलभाई

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
								पटेल भोगीलाल वीठलभाई पटेल लीलावतीबेन वीठलभाई पटेल मंजुलाबेन वीठलभाई
			1893		निजी	खेती	0.0068	पटेल भोगीलाल वीठलभाई पटेल वीमनलाल वीठलभाई पटेल गोवींदभाई वीठलभाई
			1894		निजी	खेती	0.0951	पटेल पशीबेन ईश्वरभाई पटेल भगवतीबेन ईश्वरभाई पटेल भानुबेन ईश्वरभाई पटेल भुपेन्द्रभाई ईश्वरभाई पटेल अरविंदभाई ईश्वरभाई पटेल सुशीलाबेन ईश्वरभाई पटेल वीमनभाई वीठलभाई पटेल गोवींदभाई वीठलभाई पटेल भोगीलाल वीठलभाई पटेल लीलावतीबेन वीठलभाई पटेल मंजुलाबेन वीठलभाई
			1895		निजी	खेती	0.1461	पटेल पशीबेन ईश्वरभाई पटेल भगवतीबेन ईश्वरभाई पटेल भानुबेन ईश्वरभाई पटेल भुपेन्द्रभाई ईश्वरभाई पटेल अरविंदभाई ईश्वरभाई पटेल सुशीलाबेन ईश्वरभाई पटेल वीमनभाई वीठलभाई पटेल गोवींदभाई वीठलभाई पटेल भोगीलाल वीठलभाई पटेल लीलावतीबेन वीठलभाई पटेल मंजुलाबेन वीठलभाई
			1900	1900/1	निजी	खेती	0.7000	पटेल हीराभाई मोतीराम
				1900/4	निजी	खेती	0.0713	पटेल जयंतीलाल मगनभाई
			1902	1902/1	निजी	खेती	0.0547	पटेल हरीभाई वीहाभाई पटेल भगवतीबेन वीहाभाई
			1903		निजी	खेती	0.0858	पटेल प्रभुराम मोहनभाई
			1908		निजी	खेती	0.0911	पटेल कांतीभाई देवचंदभाई पटेल पोपटभाई देवचंदभाई पटेल भरतभाई देवचंदभाई पटेल वीमनलाल छबीलदास पटेल मनुभाई सीमनलाल पटेल वीपीनभाई वीमनलाल पटेल नरेन्द्रभाई वीमनलाल पटेल मनीबेन वीमनलाल पटेल गीताबेन मनुभाई पटेल हंसाबेन वीपीनभाई पटेल सीमा नरेन्द्रभाई

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1909	1909/1, 1909/ IP1, 1909/2 and 1909/3	निजी	खेती	0.0850	पटेल बाबुभाई परभुराम पटेल जशवंतभाई प्रभुराम पटेल शैलेशभाई प्रभुराम पटेल हिराभाई भीखाभाई पटेल कांतीभाई भीखाभाई पटेल रमेशभाई भीखाभाई पटेल चंदुभाई सोमाभाई पटेल कांतीभाई सोमाभाई पटेल हितेन्द्रकुमार कांतीलाल पटेल डंपलबेन कांतीलाल पटेल आरतीबेन कांतीलाल पटेल कांताबेन कांतीलाल पटेल विठ्ठलभाई लीलाचंद पटेल चंदुभाई मोहनभाई पटेल सोमाभाई मोहनभाई पटेल मनुभाई मोहनभाई पटेल भुलजीभाई मोहनभाई पटेल शारदाबेन मोहनभाई पटेल शांताबेन मोहनभाई पटेल काशीबेन सोमाभाई पटेल रमीलाबेन सोमाभाई पटेल कांतीभाई सोमाभाई पटेल जशवंतभाई सोमाभाई पटेल रमेशभाई सोमाभाई
			1910		निजी	खेती	0.0519	पटेल काशीबेन बालचंद माधोभाई की विधवा
			1911		निजी	खेती	0.1377	पटेल कांतीभाई देवचंदभाई पटेल पोपटभाई देवचंदभाई पटेल भरतभाई देवचंदभाई
			1913/2	1913/2P1	निजी	खेती	0.0622	पटेल कचराभाई जेधाभाई बलाभाई
			1914/1		निजी	खेती	0.1092	पटेल बाबुभाई प्रभुदास वीठ्ठलदास पटेल जयतीलाल प्रभुदास वीठ्ठलदास पटेल जीवीबेन प्रभुदास वीठ्ठलदास
			1925		निजी	खेती	0.1355	पटेल दवारकाभाई हरगोचनभाई पटेल आलमाराय हरगोचनभाई पटेल अमृतभाई हरगोचनभाई पटेल भीखीबेन हरगोचनभाई
			1928	1928P1 and 1928P2	निजी	खेती	0.1674	पटेल सवीताबेन पवीनभाई पटेल पंकजकुमार पवीनभाई पटेल संदीपकुमार पवीनभाई पटेल विक्रमकुमार पवीनभाई पटेल रमीलाबेन महेन्द्रभाई पटेल तनवीबेन महेन्द्रभाई पटेल जयोतीबेन महेन्द्रभाई पटेल रविकुमार महेन्द्रभाई

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1930		निजी	खेती	0.0600	पटेल दशरथभाई शीवरामभाई पटेल जीवीबेन भायचंदभाई पटेल प्रवीनभाई भायचंदभाई पटेल राकेशभाई भायचंदभाई पटेल भरतभाई भायचंदभाई पटेल सुनिताबेन भायचंदभाई
			1931		निजी	खेती	0.0048	पटेल दिवालीबेन गणेशभाई पटेल प्रह्लादभाई गणेशभाई पटेल नटवरभाई गणेशभाई पटेल भानुबेन गणेशभाई पटेल संगीताबेन गणेशभाई पटेल पशीबेन नारायणभाई पटेल दशरथभाई नारायणभाई पटेल सविताबेन नारायणभाई पटेल कांतीभाई नारायणभाई पटेल चंद्रीकाबेन नारायणभाई पटेल प्रवीनभाई नारायणभाई
			1932		निजी	खेती	0.1559	पटेल ईश्वर जोईताराम
			1838	1838/3P1, 1838/3P2 and 1838/3P3	निजी	खेती	0.0479	पटेल नटवरलाल मगनलाल पटेल मीनाबेन जीवनभाई पटेल पंकजकुमार जीवनभाई पटेल सुशीलाबेन पंकजभाई पटेल सीमीबेन पंकजभाई पटेल हरगोवनभाई मगनलाल पटेल भीखीबेन हरगोवनभाई पटेल किशनभाई हरगोवनभाई पटेल महेन्द्रभाई हरगोवनभाई पटेल सुधाबेन किशनभाई पटेल पेकरभाई किशनभाई पटेल समीरभाई किशनभाई पटेल चंद्रीकाबेन महेन्द्रभाई पटेल साधिलभाई महेन्द्रभाई
			1959	1959/1, 1959/ 2, 1959/3 and 1959/4	निजी	खेती	0.0147	पटेल कांतीलाल हिरालाल पटेल छगनभाई मोतीराम

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

4284 4/12-3

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2012

S.O. 2709(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2413(E), dated the 18th October, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th October, 2011 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, DNA India, dated the 10th November, 2011 and Sandesh, dated the 10th November, 2011 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, 299 (Two-hundred-ninety-nine) number of objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of the District : Mehsana

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the Village	Revenue Survey Number/ Block Number		Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owners / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
1.	Mehsana	Mehsana	2004/357	2004/357/ P2	Private	Agriculture	0.0421	Patel Vishnubhai Vitthalidas Shankardas Patel Hargovanbhai Shankardas Patel Chunilal Shankardas Patel Natvarlal Shankardas
			2004/355		Private	Agriculture	0.0895	Patel Vishnubhai Vitthalidas
			2004/356	2004/356 P2	Private	Agriculture	0.0235	Sipai Hasenaben Widow of Ekvarbhai Miyabhai Sipai Bismina Akbarbhai Sipai Alarkhan Akbarbhai Sipai Ilyas Akbarbhai Sipai Alarakhiben Widow of Nathubhai Mayabhai Sipai Shokatbhai Nathubhai Sipai Asrafbhai Nathubhai Sipai Sakurbhai Nathubhai S.P.Ailarkhan
			2004/354		Private	Agriculture	0.3895	Patel Chunilal Shankarlal
			2004/348		Private	Agriculture	0.1725	Patel Prahladbhai Maganlal Patel Chandrakantbhai Pitambarbhai Suthar Chhanabhai Atmarambhai
			1486/1		Private	Agriculture	0.0029	Patel Mohanbhai Prabhuvu Mulchand Patel Mafatlal Maganlal Patel Jethabhai Chhaganlal Patel Hargovan Ambaram
			1486/2	1486/2 P	Private	Non Agriculture	0.0048	Patel Khodabhai Ambaram Makvana Vinodkumar Ambaram Parmar Ratilal Bhaljibhai Parmar Ramabhai Mithabhai Solanki Devjibhai Dhanabhai Masavda Natvarlal Mulabhai Parmar Hargovanbhai Mulchandbhai Solanki Ambaram Devabhai Parmar Kantibhai Maganlal Solanki Ashokkumar Ambalal Jadav Maganbhai Vajjibhai Parmar Khodidas Ambalal Parmar Mukeshkumar Parsotamdas Parmar Hargovanbhai Virabhai Parmar Bharatkumar Ramjibhai Vankar Mahendrakumar Shivram Parmar Dilipkumar Bhaljibhai Solanki Ganpatbhai Parkhabhai Parmar Natvarlal Amthabhai Vaghela Nathiben Girishbhai Solanki Parvatiben Chimanlal Parmar Manilal Ramjibhai
			1487		Private	Agriculture	0.0073	Jayswal Minaxiben Ratilal Jayswal Rajeshkumar Ratilal Jayswal Prashantkumar Ratilal Jayswal Rupeshkumar Ratilal Jayswal Sanjaykumar Ratilal Jayswal Ramanlal Chhaganlal Jayswal Rasiklal Chhaganlal

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
2.	Unjha	Unjha	1640	1640, 1640 P1, 1640 P2 and 1640 P3	Private	Agriculture	0.0325	Patel Maganlal Lilachand Patel Kantilal Lilachand Patel Shardaben Kantilal Patel Devyani Kantilal Patel Ritesh Kantilal Patel Nitul Kantilal Patel Jayantilal Lilachand Patel Maganlal Lilachand Patel Kantilal Lilachand Patel Santakben widow of Hira Ramchand Patel Joitaram Hiralal Patel Kantaben Hiralal Patel Shardaben widow of Vitthalbhai Hirabhai Patel Dilipbhai Vitthalbhai Patel Nitaben Vitthalbhai Patel Maniben Hiralal
			1641		Private	Agriculture	0.0260	Barot Rugnath Shivilal
			1642	1642 P1 and 1642 P2	Private	Agriculture	0.0309	Patel Maniben Shankarlal Patel Hargovanbhai Shankarlal Patel Taraben Shankarlal Patel Vishnubhai Shankarlal Patel Natvarlal Ambaramdas Patel Shardaben Jayantilal Patel Chiragkumar Jayantilal Patel Jayashriben Jayantilal Patel Kantilal Ambaramdas
			1647	1647/1	Private	Agriculture	0.0491	Patel Somabhai Vitthalbhai Patel Arvindbhai Chhaganlal Patel Savitaben Natvarlal Patel Maniben Somabhai Patel Kalpeshbhai Somabhai Patel Chandrikaben Somabhai Patel Mehulkumar Natvarlal Patel Chandrikaben Somabhai Patel Mehulkumar Natvarlal Patel Rekhaben Somabhai
			1647	1647/2	Private	Agriculture	0.0567	Patel Dashrathlal Mohanlal Patel Vasantlal Mohanlal Patel Savitaben Mohanlal Patel Chandrikaben Mohanlal Patel Jethiben Dhanjibhai Patel Rameshbhai Dhanjibhai Patel Amrutbhai Dhanjibhai
			1648		Private	Agriculture	0.1269	Patel Babiben Jivrambhai Patel Shantaben Jivrambhai Patel Ashaben Jivrambhai Patel Ashishbhai Jivrambhai
			1649		Private	Agriculture	0.1273	Patel Ishwarbhai Ambarambhai
			1657	1657/1	Private	Agriculture	0.1418	Patel savitaben Hirabhai Patel Kantaben Hirabhai Patel Govindbhai Hirabhai Patel Dashrathbhai Hirabhai

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
				1657/2	Private	Agriculture	0.1512	Patel Punamben Hirabhai Patel Natvarlal Ambaramdas Patel Shardaben Jayantilal Patel Chiragkumar Jayantilal Patel Jayashriben Jayantilal Patel Kantaben Kantilal Patel Maheshbhai Kantilal Patel Bipinbhai Kantilal Patel Hansaben Kantilal
			1658	1658 P1, 1658P2, 1658P3 and 1658P4	Private	Agriculture	0.6692	Patel Mohanbhai Parsotambhai Patel Ramilaben Parsotambhai Patel Kashiben Parsotambhai Patel Kantilal Ambaramdas Patel Natvarlal Ambaramdas Patel Shardaben Jayantilal Patel Chiragkumar Jayantilal Patel Jayashriben Jayantilal Patel Nathiben Tulshibhai Patel Vasantbhai Tulshibhai Patel Vijaybhai Tulshibhai Patel Rashilaben Tulshibhai Patel Jyotsanaben Tulshibhai Patel Ritaben Tulshibhai Patel Maniben Shankarlal Patel Hargovanbhai Shankarlal Patel Taraben Shankarlal Patel Vishnubhai Shankarlal
			1660/1	1660/1 P1 and 1660/1 P2	Private	Agriculture	0.2354	Patel Shambhubhai Prabhudas Patel Shambhubhai Prabhudas Patel Shankarbhai Shambhubhai Patel Kantilal Narayanbhai Patel Jiviben Widow of Bhagwanbhai Narayanbhai Patel Sureshbhai Bhagwanbhai Patel Kamleshbhai Bhagwanbhai Patel Kokilaben Bhagwanbhai Patel Chandrikaben Bhagwanbhai Patel Manjulaben Bhagwanbhai Patel Ramilaben Bhagwanbhai
			1660/2	1660/2 P1	Private	Agriculture	0.1426	Patel Savitaben Hirabhai Patel Kantaben Hirabhai Patel Govindbhai Hirabhai Patel Dashrathbhai Hirabhai Patel Punamben Hirabhai
			1665	1665/1	Private	Agriculture	0.0076	Patel Mohanbhai Parsotambhai Patel Ramilaben Parsotambhai Patel Kashiben Parsotambhai
				1665/2	Private	Agriculture	0.2125	Patel Shantaben Narayanbhai Patel Nathalal Narayanbhai
			1666		Private	Agriculture	0.3249	Patel Rameshbhai Bhagwandas Patel Vishnubhai Bhagwandas

4284 9/12-4

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1667	1667 P1 and 1667 P2	Private	Agriculture	0.4389	Patel Jiviben Widow of Bhagwanbhai Narayanbhai Patel Sureshbhai Bhagwanbhai Patel Kamleshbhai Bhagwanbhai Patel Kokilaben Bhagwanbhai Patel Chandrikaben Bhagwanbhai Patel Manjulababen Bhagwanbhai Patel Ramilababen Bhagwanbhai Patel Kantilal Narayanbhai
			1669	1669 P1 and 1669 P2	Private	Agriculture	0.1118	Patel Kantibhai Amtharam Patel Govindbhai Amtharam Patel Madhavilal Shankarlal Patel Govindbhai Shivrambhai Patel Kankuben Shivrambhai Patel Shardaben Shivrambhai Patel Shantaben Shivrambhai
			1670/2		Private	Agriculture	0.0345	Patel Jashvantbhai Manilal Kushalbhai
			1839		Private	Agriculture	0.0583	Patel Khemiben Widow of Bhagwandas Khushal Patel Ramjibhai Bhagwanbhai Patel Vishnubhai Bhagwanbhai Patel Shardaben Bhagwanbhai Patel Taraben Bhagwanbhai
			1840/1		Private	Agriculture	0.0593	Patel Bipinchandra Manilal Patel Shantaben Manilal Patel Vishnubhai Manilal Patel Ambaben Vasantlal
			1842	1842 P1 and 1842 P2	Private	Agriculture	0.0560	Raval Kanakbhai Vasudev Raval Mukeshbhai Vasudev Raval Manojbhai Vasudev Patel Jayantibhai Shankarlal Patel Haribhai Shankarlal Patel Dashrathbhai Shankarlal
			1874/1		Private	Agriculture	0.1873	Patel Dashrathbhai Jivrambhai Patel Sureshbhai Jivrambhai Patel Vasantbhai Jivrambhai
			1874/3		Private	Agriculture	0.0497	Patel Dashrathbhai Jivrambhai Patel Sureshbhai Jivrambhai Patel Vasantbhai Jivrambhai
			1876		Private	Agriculture	0.1164	Sipai Aminabanu Bhaikhan Sipai Mamadhusen Bhaikhan Sipai Rasulmiya Bhaikhan Sipai Yakubmiya Bhaikhan Sipai Habibmiya Bhaikhan Sipai Rafikmiya Bhaikhan
			1890		Private	Agriculture	0.1217	Patel Mohanbhai Parsotambhai Patel Ramilaben Parsotambhai Patel Kashiben Parsotambhai
			1891		Private	Agriculture	0.1428	Patel Savitaben Hirabhai Patel Kantaben Hirabhai Patel Govindbhai Hirabhai Patel Dashrathbhai Hirabhai Patel Punamben Hirabhai

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1892		Private	Agriculture	0.1383	Patel Pashiben Ishwarbhai Patel Bhagwatiben Ishwarbhai Patel Bhanuben Ishwarbhai Patel Bhupendrabhai Ishwarbhai Patel Arvindbhai Ishwarbhai Patel Sushilaben Ishwarbhai Patel Chimanbhai Vitthalbhai Patel Govindbhai Vitthalbhai Patel Bhiogilal Vitthalbhai Patel Lilavatiben Vitthalbhai Patel Manjulaben Vitthalbhai
			1893		Private	Agriculture	0.0068	Patel Bhogilal Vitthalbhai Patel Chimanlal Vitthalbhai Patel Govindbhai Vitthalbhai
			1894		Private	Agriculture	0.0951	Patel Pashiben Ishwarbhai Patel Bhagwatiben Ishwarbhai Patel Bhanuben Ishwarbhai Patel Bhupendrabhai Ishwarbhai Patel Arvindbhai Ishwarbhai Patel Sushilaben Ishwarbhai Patel Chimanbhai Vitthalbhai Patel Govindbhai Vitthalbhai Patel Bhiogilal Vitthalbhai Patel Lilavatiben Vitthalbhai Patel Manjulaben Vitthalbhai
			1895		Private	Agriculture	0.1461	Patel Pashiben Ishwarbhai Patel Bhagwatiben Ishwarbhai Patel Bhanuben Ishwarbhai Patel Bhupendrabhai Ishwarbhai Patel Arvindbhai Ishwarbhai Patel Sushilaben Ishwarbhai Patel Chimanbhai Vitthalbhai Patel Govindbhai Vitthalbhai Patel Bhiogilal Vitthalbhai Patel Lilavatiben Vitthalbhai Patel Manjulaben Vitthalbhai
			1900	1900/1	Private	Agriculture	0.7000	Patel Hirabhai Motiram
				1900/4	Private	Agriculture	0.0713	Patel Jayantilal Maganbhai
			1902	1902/1	Private	Agriculture	0.0547	Patel Haribhai Vihabhai Patel Bhagwatiben Vihabhai
			1903		Private	Agriculture	0.0858	Patel Prabhuram Mohanbhai
			1908		Private	Agriculture	0.0911	Patel Kantibhai Devchandbhai Patel Popatbhai Devchandbhai Patel Bharatbhai Devchandbhai Patel Chimanlal Chhabildas Patel Manubhai Chimanlal Patel Bipinbhai Chimanlal Patel Narendrabhai Chimanlal Patel Maniben Chimanlal Patel Geetaben Manubhai Patel Hansaben Bipinbhai Patel Seemaben Narendrabhai

11284 97 12-5

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1909	1909/1, 1909/1 P1, 1909/2 and 1909/3	Private	Agriculture	0.0850	Patel Babubhai Parbhuram Patel Jashvantbhai Prabhuram Patel Shaileshbhai Prabhuram Patel Hirabhai Bhikhabhai Patel Kantibhai Bhikhabhai Patel Rameshbhai Bhikhai Patel Chandubhai Somabhai Patel Kantibhai Somabhai Patel Hitenkumar Kantilal Patel Dimpalben Kantilal Patel Artiben Kantilal Patel Kantaben Kantilal Patel Vitthalbhai Lilachand Patel Chandubhai Mohanbhai Patel Somabhai Mohanbhai Patel Manubhai Mohanbhai Patel Muljibhai Mohanbhai Patel Shardaben Mohanbhai Patel Shantaben mohanbhai Patel Kashiben Somabhai Patel Ramilaben Somabhai Patel Kantibhai Somabhai Patel Jashvantbhai Somabhai Patel Rameshbhai Sombhai
			1910		Private	Agriculture	0.0519	Patel Kashiben Widow of Balchand Madhabhai
			1911		Private	Agriculture	0.1377	Patel Kantibhai Devchandbhai Patel Popalbhai Devchandbhai Patel Bharatbhai Devchandbhai
			1913/2	1913/2P1	Private	Agriculture	0.0622	Patel Kachrabhai Jethabhai Dalabhai
			1914/1		Private	Agriculture	0.1092	Patel Babubhai Prabhudas Vitthalidas Patel Jayantilal Prabhudas Vitthalidas Patel Jiviben Prabhudas Vitthalidas
			1925		Private	Agriculture	0.1355	Patel Dwarkabhai Hargovanbhai Patel Atmaram Hargovanbhai Patel Amrutbhai Hargovanbhai Patel Bhikhiben Hargovanbhai
			1928	1928P1 and 1928P2	Private	Agriculture	0.1674	Patel Savitaben Pravinbhai Patel Pankajkumar Pravinbhai Patel Sandipkumar Pravinbhai Patel Vikramkumar Pravinbhai Patel Ramilaben Mahendrabhai Patel Tanviben Mahendrabhai Patel Jyotiben Mahendrabhai Patel Ravikumar Mahendrabhai
			1930		Private	Agriculture	0.0600	Patel Dashrathbhai Shivrambhai Patel Jiviben Bhaychandbhai Patel Pravinbhai Bhaychandbhai Patel Rakeshbhai Bhaychandbhai Patel Bharatbhai Bhaychandbhai Patel Sunitaben Bhaychandbhai

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) (a)	(4) (b)				
			1931		Private	Agriculture	0.0048	Patel Diwaliben Ganeshbhai Patel Prahladbhai Ganeshbhai Patel Natvarbhai Ganeshbhai Patel Bhanuben Ganeshbhai Patel Sangeetaben Ganeshbhai Patel Pashiben Narayanbhai Patel Dashrathbhai Narayanbhai Patel Savitaben Narayanbhai Patel Kantibhai Narayanbhai Patel Chandrikaben Narayanbhai Patel Pravinbhai Narayanbhai
			1932		Private	Agriculture	0.1559	Patel Ishwar Joitaram
			1838	1838/3P1, 1838/3P2 and 1838/3P3	Private	Agriculture	0.0479	Patel Natvarlal Maganlal Patel Menaben Jivanbhai Patel Pankajkumar Jivanbhai Patel Sushilaben Pankajbhai Patel Simiben Pankajbhai Patel Hargovanbhai Maganlal Patel Bhikhiben Hargovanbhai Patel Kishanbhai Hargovanbhai Patel Mahendrabhai Hargovanbhai Patel Sudhaben Kishanbhai Patel Pekarbhai Kishanbhai Patel Samirbhai Kishanbhai Patel Chandrikaben Mahendrabhai Patel Sahilbhai Mahendrabhai
			1959	1959/1, 1959/2, 1959/3 and 1959/4	Private	Agriculture	0.0147	Patel Kantilal Hiralal Patel Chhaganbhai Motiram

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land & Amenities-1)